

Chapter 82: Recognizing Key Details in Advertisements, Emails, and Signs

Arre yaar boss! Aaj ka topic hai ekdum smart aur zaroori skill — kaise advertisements, emails, aur signs mein important baatein samjhein? Matlab jab hum ek banner, email, ya road sign dekhte hain, toh turant ye samajh lete hain ki kya important hai.

Hindi mein iska matlab: विज्ञापनों, ईमेलों, और संकेतों में मुख्य जानकारी को पहचानना.

Yeh skill kyu zaroori hai?

- (1) Market mein jab tum kisi product ka poster dekhte ho, samajhna hota hai ki offer kya hai, price kya hai.
- (2) Emails mein jab tumhe jaldi se pata karna ho ki message kya important hai.
- (3) Signs (jaise traffic signs) se tum safe rah sakte ho aur raste pe confusion nahi hoti.

Boss, yeh skill tumhari zindagi ka time bachayegi aur tum hero ban jaoge smart bana ke!

Kab Use Karen?

- Jab tum newspaper ya magazine mein ads padh rahe ho.
- Jab tum kisi company se email receive karo aur jaldi samajhna ho.
- Jab sadak par, bazaar mein ya mall mein kisi sign ko samajhna ho.

Yeh tumhe pathshala jaisi details par dhyan dena sikhaega, ki kis baat pe focus karna important hai.

Example Sentences (20)

- (1) This product is 50% off! = इस उत्पाद पर 50% छूट है!
- (2) Sale ends tomorrow. = बिक्री कल समाप्त होगी।
- (3) Contact us at 1234567890. = हमसे 1234567890 पर संपर्क करें।
- (4) New collection just arrived. = नई कलेक्शन अभी आई है।
- (5) Limited time offer. = सीमित समय का ऑफर।
- (6) Email received from HR department. = एचआर विभाग से ईमेल प्राप्त हुई।

- (7) Please respond before 5 PM. = कृपया शाम 5 बजे से पहले उत्तर दें।
- (8) Meeting scheduled at 3 PM. = बैठक 3 बजे नियोजित है।
- (9) No parking zone. = पार्किंग निषेध क्षेत्र।
- (10) Use pedestrian crossing. = पदयात्रियों के लिए क्रॉसिंग का उपयोग करें।
- (11) Exit here. = यहाँ से बाहर निकलें।
- (12) Emergency exit only. = केवल आपातकालीन निकास।
- (13) Wash your hands regularly. = नियमित रूप से हाथ धोएं।
- (14) Email subject: Job interview. = ईमेल विषय: नौकरी का साक्षात्कार।
- (15) Buy one get one free. = एक खरीदो एक मुफ्त पाओ।
- (16) Call now for discount. = छूट के लिए अभी कॉल करें।
- (17) New opening hours: 9 AM to 9 PM. = नये खोलने के घंटे: सुबह 9 से रात 9 तक।
- (18) Please keep area clean. = कृपया क्षेत्र साफ रखें।
- (19) Account details changed. = खाता विवरण बदल गया।
- (20) Danger: Wet floor. = खतरा: फिसलन भरी मंज़िल।

Vocabulary List (10-15 words)

Word Meaning (Hindi)

Advertisement विज्ञापन

Email ईमेल

Sign संकेत / निशान

Discount छूट

Offer ऑफर

Limited Time सीमित समय

Contact संपर्क

Meeting बैठक

Emergency आपातकालीन

Parking पार्किंग

Crossing क्रॉसिंग

Danger खतरा

Clean साफ

Wet Floor गीला फर्श
New Collection नई कलेक्शन

Funny Recap (Friend Chat Style)

Boss, jab bhi tum bazaar ya online ho, turant ad, email, sign dhyan se padhna, specially wo words jo bade aur rangin hote hain! Jaise – “50% off”, “Limited time”, “Danger”, “Emergency” – bas ye words mil gaye, samajh jao boss, yeh important hai.

- Dost bola: “Bhai, aaj kaunsa offer best hai?”
- Tum bola: “Arey yaar, pehle to ‘Limited Time Offer’ dhoondo, fir socho!”
- Dost: “Agar sign pe likha ho ‘Wet Floor’?”
- Tum: “Bhai, mat phislo warna photo viral ho jayega!”

Aise hi practice karo, angrezi samajhni aani shuru ho jayegi. Arey wah, mast seekh rahe ho boss!